DEMAND Registered Office: Basant Lok,Vasant Vihar ,New Delhi-110057. Corporate Office :Centrum House, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacru NOTICE U/s. 13 (2) (E), Mumbai – 400 098 UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST

ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules") The undersigned being the Authorized Officer of Unity Small Finance Bank Limited ("Bank") under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice (s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following Borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. As some of the notice(s) are not served as pe postal remarks, hence said notice(s) are being served upon the Borrower(s) by way of alternative mode of service i.e. through publication in New Papers

) MEENA H (CO-BORROWER & MORTGAGOR)) VIKAS CHAUHAN (CO-BORROWER) 3) VINAS CHAUTAIN (CO-BORROWER)
4) PRASHANT CHAUHAN (CO-BORROWER)
5) SONAL CHAUHAN (CO-BORROWER)
Agreement Date: 23/06/2022
Loan Account No: - USFBDELLOAN000005003467
Loan Amount: Rs. 64,95,000/NBB Date: 03/04/0903

Borrower(s) Name: 1) MD CONTRACTOR (BORROWER)

Demand Notice Date: 13/10/2023 (Sent on 17/10/2023)
Demand Notice Amount: Rs. 50,73,275.61p (as on 11/10/2023)
And Interest & other charges 1/10/2023) and interest & other charges

All That Piece And Parcel Of Immovable Properties As Described Herein Below: -Property No. 1: Plot No. 15, Area 110 Square Yards I.e. 91.97 Square Meters, Khata No. 00129, Khasra No. 1180 Meters, Village Barola, Pargana & Tehsil – Dadri, Dist. Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India – 201301 Boundaries (as Per Gift Deed)

East — Property Of Zile Singh North — Property Of Indrajeet South — Street Property No. 2: Plot No. 128, Area 140 Square Yards I.e.117.05 Square Meters, Khata No. 00128, Khasra No. 1086 Meters, Village Barola, Pargana & Tehsil – Dadri,

East - Property Of Dharmapal North - Street South-Property Of Deepak

In case of failure to repay the aforesaid dues within a period of 60 (sixty) days, the undersigned shall be constrained to enforce the above Secured Assets under the provisions of the Act. Please note that as per section 13(13) of the Act, you are restrained from dealing with or transferring any of the secured assets referred to herewith, whether by way of sale, lease or otherwise. Any contravention of this provision is an offence and punishable under the Act. The copy of demand notice is available with the undersigned and the Borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned or Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH Date: 18/11/2023 Sd/- Authorized Officer, Unity Small Finance Bank Limited

SECOND FLOOR, GMTT BUILDING UJJIVAN SMALL FINANCE BANK **D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301**

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor Co- Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account,

Name of address of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice and Date of possession	Amount as per demand notice
Mr. Ramkishore S/o Govind Ram, 65, Bijasan Nagar, First Baxawala, Sanganer, Jaipur, Rajasthan,	All that Part & Parcel of Property Plot No. 65,	Date of Demand Notice: 27.12.2022 Date of possession: 15.11.2023	Rs. 4,52,434.91/-
Thana, Jaipur Airport, Sanganer, Raiasthan-302011.	Enclave- II, Baksawala, bounded as follows: Bo	Yards situated at scheme Pratap Sanganer, Jaipur, Rajasthan which is bundaries: East: Public Road, West: No. 66, South: Plot No. 64	27.12.2022
302029, Also At: 149, Raghunathpuri 2, Sanganer,			n Account No

233879700000026 Authorised Office

Date: 18-11-2023 Place: Jaipu

Picici Home Finance | Corporate Office: ICICI Home Finance Company Limited ICICI HFC Tower, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400059, India Branch Office: Office No-8, 2nd floor, Sumriddhi Business Suites, 38/4-A, Sanjay Place Agra- 282002 Notice for sale of immovable assets through Private Treaty

Sale Notice for Sale of Immovable Assets through Private Treaty under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(8)r/w Rule 9 (1)of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

ICICI Home Finance Company Limited (ICICI HFC) conducted severale-Auctions for the sale of the mortgaged property mentioned below, however, all such e-Auctions failed. Now, an interested buyer has approached ICICI HFC with an offer to purchase the said property for an amount of Rs.13,50,000/-. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below-described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Ltd., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", by way of Private Treaty as per the brief particulars given hereunder;

Si No	Guarantors/ Legal Heirs. Loan Account No.		Amount Outstanding	Reserve Price Earnest Money Deposit	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of Auction
(A) (B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Kundan Singh (Borrower) Anita (Co-Borrower) Loan Account No. LHAGR00001388663	Property Bearing House No. 6, Khasra No. 100mi, Situated at Waka Ram Vihar Colony, Phase 2, Mauja Ukharra, Tajgani Ward, Tehsil and Dist. Agra, Up-282001	Rs. 25,00,389/- November 08, 2023	Rs. 13,50, 000/- Rs. 1,35,000/-	23, 2023 11:00 AM 03:00 PM	December 05, 2023 02:00 PM 03:00 PM

The online auction will be conducted on website (URL Link- / https://BestAuctionDeal.com) of our auction agency GlobeTech. The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) RTGS/Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Home Finance Company Limited, Office No-8, 2nd floor, Sumriddhi Business Suites, 38/4-A, Sanjay Place Agra- 282002 on or before December 04, 2023 before **04:00 PM.** The Prospective Bidder(s) must also submit a signed copy of the Registration Form & Bid Terms and Conditions form at **ICICI Home Finance Company Limited, Office No-8, 2nd floor, Sumriddhi Business** Suites, 38/4-A, Sanjay Place Agra- 282002 on or before December 04, 2023 before 05:00 PM. Earnest Money Deposit Demand Draft (DD) should be from a Nationalized/Scheduled Bank in favor of "ICICI Home Finance Company Ltd. – Auction" payable at Agra.

The general public is requested to submit their bids higher than the amount being offered by the interested

buyer mentioned above. It is hereby informed that in case no bids higher than the amount being offered by the aforementioned interested buyer is received by ICICI HFC, the mortgaged property shall be sold to the said interested buyer as per Rule 8(8) r/w Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the sale or submission of bids,

kindly contact ICICI Home Finance Company Limited on 022-69974300 or our Sales & Marketing Partner NexXen Solutions Private Limited.

The Authorized Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons. For detailed terms and conditions of the sale, please visit https://www.icicihfc.com/

Date : November 18, 2023 **Authorized Office**

Place : Agra

ICICI Home Finance Company Limited



OFFICE OF THE

COMMISSIONER OF INCOME TAX (JUDICIAL)

ROOM NO. 162-A, C.R. BUILDING, NEW DELHI

Phone & Fax: 23379308, Email: delhi.cit.iudicial@incometax.gov.in

F.No. CIT (Judl.)/NCLT Matter/2023-24/620

Dated-16.11.2023

NDOH BENCH

NOTICE REGARDING HEARING OF CASES IN NCLT MATTERS

EX-DIRECTORS

Notice is hereby given to the following companies and their Directors for necessary compliance in respect of NCLT matters/cases, pertaining to revival of these companies, which are fixed for hearing before Hon'ble National Company Law Tribunal, CGO Complex, Lodhi Road, Nev Delhi on dates as mentioned in column no. 4 in the table below:-

S.	CASE DETAILS	EX-DIRECTORS	NDOH	BENCH		
NO.						
1.	C.A. No. 64/252/ND/2023	Nishant Agarwal,	07.12.2023	6		
	ITO Ward 13(1) v. RoC & Ors. [M/s Janina Trexim India	Deepan Kumar				
	Pvt Ltd]					
2.	C.A. No. 94/252/ND/2023	Krishna Bihari Gautam,	07.12.2023	6		
	ITO Ward 15(1) v. RoC &	Lokesh Kumar				
	Ors. [M/s Lakeshia Tradex Pvt Ltd]					
3.	C.A. No. 106/ND/252/2023	Late Mohd. Rais	28.11.2023	4		
	ITO Ward 17(1) v. RoC &	Through Legal Heir				
	Ors. [M/s Melton India Pvt Ltd]	Mumtaj Begum,				
		Moh. Farhan,				
		Mohd. Imran				
4.	C.A. No.225/ND/252/2023	Sachin Kumar,	05.01.2024	5		
	ITO Ward 18(3) v. RoC &	Praveen Sharma				
	Ors. [M/s Nightingale IT Ecomm Pvt Ltd]					
5.	C.A.No.232/ND/252/2023	Mashkoorur Rahman Ghyasi,	30.11.2023	6		
	ITO Ward 18(3) v. RoC &	Suresh Kumar Bareth,				
	Ors. [M/s Nirvan Hire Purchase Ltd.]	Davinder Singh				
6.	C.A. No.228/ND/252/2023	Hemant Jai,	04.12.2023	3		
	ITO Ward 13(3) v. RoC &	Vivek Tandon,				
	Ors. [M/s. Jaycee Infrastructure Ltd.]	Rajinder Malhotra				
7.	C.A. No. 29/ND/252/2023 ITO Ward 13(1) v. RoC &	Krishna Kumar Dixit,	22.11.2023	5		
	Ors. [M/s. Nexengg Consultancy Pvt. Ltd.]	Shalini Dixit				
8.	C.A. No. 61/252/ND/2023	Urmila,	06.12.2023	5		
	ITO Ward 15(1) v. RoC &	Atul				
	Ors. [M/s. Janki Cloth Gallery Pvt. Ltd.]					
In this connection, through this Notice, the Principal Officers/ Directors of the aforesaid compa-						

In this connection, through this Notice, the Principal Officers/ Directors of the aforesaid compa nies are hereby informed and requested to attend their respective cases before Hon'ble Nationa Company Law Tribunal on the dates fixed for hearing as mentioned above. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned respective days, the case will be heard and decided in your absence.

cbc 15403/11/0011/2324

Sd/-(Heera Lal) **Income Tax Officer** (Judicial)-3, New Delhi



UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED
Registered Office: Basant Lok, Vasant Vihar ,New Delhi-110057
Corporate Office: Centrum House, Vidyanagari Marg, Kalina, Santa

UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules")

Act, 2002 (lite act) AND THE SECONTY INTEREST (ENFORCEMENT) NOLES, 2002 (lite rates)
The undersigned being the Authorized Officer of Unity Small Finance Bank Limited ("Bank") under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act, calling upon the following Borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. As some of the notice(s) are not served as per postal remarks, hence said notice(s) are being served upon the Borrower(s) by way of alternative mode of service i.e. through publication in News S.No. Secured Assets

Loan Account Details orrower(s) Name:) Bhagat Singh (Borrower)) Roshni C (CO-Borrower& Mortgagor) ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTIES AS DESCRIBED HEREIN BELOW: -KHEWAT/KHATA No. 183/199 MUSTATIL NO.9, KILLA NO. 11/2 (1 17), 20/1 (5-7). SITUATED IN THE WAKA MAUJA VILLAGE OF KITHWADI TEHSIL & DISTT PALWAL, HARYANA- 121102 action Date: 26/02/2023 Loan Account No: - USFBDELLOAN000005007853 & SFBDELLOAN000005007857 BOUNDARIES (AS PER MORTGAGE DOCUMENT)

John Electrivious of 137, 2014, 708/NPA Date: 02/10/2023
Demand Notice Date: 12/10/2023 (Sent on 17/10/2023)
Demand Notice Amount: Rs. 24,05,954.35p (as on 11/10/2023) and EAST — STREET 13FT WIDE WEST — PLOT OF KARAN DALAL NORTH — PROPERTY OF RAJARAM SOUTH - PROPERTY OF JACGU terest & other charges ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTIES AS orrower(s) Name:) SATVINDER P (BORROWER & MORTGAGOR) DESCRIBED HEREIN BELOW:-KHEWAT/KHATA NO. 343/359, KHASRA NO.336 (0-19), 338 (1-0), 347 (1-0), KITA -3, RAKBA-2, KANAL -9/59 PART OF 19 MARLA

1) SAI VINDER P (BURROWER & MURTGAGUR)
2) MRS. LAXMI K (CO-BORROWER)
Agreement Date: 27/05/2023
Loan Account No. - USFBDELLOAN000005009880
Loan Amount: Rs. 18,27,144/NPA Date: 02/11/2023

Remoral Metics Dates 06/14/2023 BARAKBA 9 MARI.A272 SQ.YDS, MAUJA-PHULWARI, FARIDABAD, HARYANA (AREA MEASURING 272 SQ.YDS) AND BOUNDED BY BOUNDARIES: (AS PER MORTGAGE DOCUMENT) Demand Notice Date: 06/11/2023 (Sent on 07/11/2023) NORTH: PROPERTY OF BAHUA Demand Notice Amount: Rs. 19,41,454.30p (as on 03/11/2023) and SOUTH: PROPERTY OF RAJPAL terest & other charges

WEST: 11 FT KACHHA ROAD In case of failure to repay the aforesaid dues within a period of 60 (sixty) days, the undersigned shall be constrained to enforce the above Secured Assets under the provisions of the Act. Please note that as per section 13(13) of the Act, you are restrained from dealing with or transferring any of the secured assets referred to herewith, whether by way of sale, lease or otherwise. Any contravention of this provision is an offence and punishable under the Act. assets referred to herewith, whether by way of sale, lease or otherwise. Any contravention of this provision is an offence and punishable under the Act. The copy of demand notice is available with the undersigned and the Borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on

Place: FARIDABAD, HARYANA Date: 18/11/2023

Sd/- Authorized Officer, Unity Small Finance Bank Limited

SBFC

SBFC Finance Limited

Registered Office:- Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SBFC Finance Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property(ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)		
1. FOREVER PRINTERS, No.1 having address at Pull Jatwada, Sitapur, Jawalapur, Haridwar, Near Vaishnav Mata Mandir, Uttarakhand-249407., 2. SEEMA SHARMA, 3. NAVNEET, No.2 & 3 are having their address at Dalalan Street, Pargana Jawalapur, Tehsil & District Haridwar, Uttarakhand-249407. Demand Notice Date: 29th July 2023 Loan No. 4021060000032897-C (PR00738276), 7724627123C(PR00745138), 37268(PR00827479) & ECLGS68760(PR00982158)	Mtrs along with R.C.C. Construction thereon, Situated at Mohalla Dalalan, Pargana Jawalapur, Tehsil & District Haridwar, Uttara Khand and	Rs. 19,83,128/- (Rupees Nineteen Lakh(s) Eighty Three Thousand One Hundred Twenty Eight Only) as on 29th July 2023		
The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the				

secured assets Sd/- (Authorized Officer) Place: Haridwar

Date: 18/11/2023

Corporate identify Number: U67190MH2007PLC74287

JM Financial Asset Reconstruction Company Limited

JM FINANCIAL

Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025 | Website – www.jmfinancialarc.com Contact Person: 1. Nishant Gautam - 9899216466, 2. Rohan Sawant - 9833143013, 3. Akshay Hassija - 022 - 6224 1676

E-Auction Sale Notice – Fresh Sale That Piramal Capital and Housing Finance Ltd (formerly known as Dewan Housing and finance corporation Ltd) have assigned a pool of Loa including below mentioned Loans) together with underlying security interest created thereof along with all the rights, title and interest thereo

inder Section 5 (1) (b) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAES ACT") vide an assignment agreement dated March 29, 2023 ("the Assignment Agreement") in favour of JMFARC (JM) (herein referred as Assignee) acting in its capacity as trustee of JMFARC – Aranya – Trust. It is to notify that PCHFL is authorized and appointed to act as Service provider / Collection agent to facilitate all operational and procedures processes vide Assignment / Service Agreement.
Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Secured Creditor under the SARFAESI
Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned for purchase of immovable property, as described

reunder, which is in the physical possession, on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particulars f which are given below Loan Code / Branch /

Property Address _final

July July July July July July July July	DATE OF E-AUCTION: 21-12-2023, FROM 11.00 A.M. TO 2.00 P.M (WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES EACH), LAST DATE O						
Dhanawat (Borrower), Priyanshi Jaiswal (Co Borrower 1) Neera Dhanawat (Co Borrower 2) Only Only	Thousand	Thousand Seven Hundre Forty Three Only)					

Dt: 28-06-2021, All The piece and Parcel of the Property having an Rs. 10405579/-, extent - Property No. 36/17, G.f. Back Side NA 9340000/-, (Rs. One Crore Without Roof Rights, East Patel Nagar, Without (Rs. Ninety

SUBMISSION OF BID: 20-12-2023, BEFORE 4.00 P.M.
For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale OR https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale OR STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESIACT TO THE BORROWER/GUARANTOR / MORTGAGOR

The above mentioned Borrower/Guarantor are hereby noticed to pay the sum as mentioned in section 13(2) notice in full with accrued interest till late before the date of auction, failing which property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost from force or grant or the sum of the control of the sum of the

Date: 18.11.2023

Borrower(s) /

Loan Code No

13000002414, Gurgaon

(Branch), Ganesh

orrower(s)/ Guarante

Notice Date

(Aranya - Trust)

Deposit (EMD)

(10% of RP)

Rs.934000/-

(Rs. Nine

lakh Thirty

Amount (30-10-2023)

Rs 11760743/

Seventeen lakh

P muthööt HOUSING FINANCE

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: Govind Ram Balram Sharma - 9212443181.

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of unde mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt

Sr. No.	Name of Borrower/s & LAN	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1.	LAN No.: 15100069516 1. Naveen Kumar 2. Fulakumari Devi	Symbolic - Possession - 21-May-2019	Rs.18,97,372.07/- as on 17-November-2023	Rs. 4,50,000/-	Rs. 45,000/-
Description of Secured Asset(s) /Immovable Property (ies): FLAT NO 3 FRONT BACK SIDE, KHASRA NO. 125, SHASHI TO					

KHATA NO 125. VIL GARHI CHAUKHADI. DADRI GB NAGAR, NOIDA H.O. UTTAR PRADESH. 201301. BOUNDED BY: NORTH: OTHER SOUTH: 02, EAST: ENTRY, WEST: OTHER.

Inspection Date & Time: 28-November-2023 & 29-November-2023at 10.00 AM to 05.00 PM. Auction Date: 08-December-2023 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 07-December-2023.

Place: Uttar Pradesh, Date: 18-November-2023

Place of Sale: B2, First Floor, Rdc, Rajnagar, Above Sbi Bank, Ghaziabad (Up)-201001. Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:-

1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the term and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is"

and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any, 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establis contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited" ards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders prese in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs. 10000/- in addition to Reserve Price fixed, 7) All dues and outgoings, i.e. nicipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10%) of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. 10) The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prio notice, at his discretion. 11) The Authorized Officer reserves the right to reject any/all bids without assigning any reason. All the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. 12) The borrower's attention is invited to the provisions of sub section 8 of section 13, of the SARFAESI Act, in respect of the time available, t redeem the secured asset. 13) Public in general and borrower(s)/ mortgagor(s) in particular please take notice that if in case auction scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may enforce security interest by way of sale through private treaty. The borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) are hereby given STATUTORY 15DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Securit

Interest (Enforcement) Rules of SARFAESI ACT. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 15 days' time else it will be removed from property on their risk and cost.

FINANCIAL EXPRESS

PANOPTES INDIA PRIVATE LIMITED (Under Corporate Insolvency Resolution Process)

Notice is hereby given that the undersigned being the Counsel of the Resolution Professional of Panoptes India Private Limited, a company whose Corporate nsolvency Resolution Process was initiated by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi vide its order dated 30-11-2021 in CP(IB) 448/ND/2020, has preferred application bearing no. IA 6300 of 2022 Under the nstructions of the Resolution Professional before the Hon'ble NCLT, New Delhi (Bench-IV) under section 66 of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 . The said application was listed for hearing before the Hon'ble NCLT, New Delhi, Bench IV on 18.10.2023, whereby the Hon'ble NCLT directed to publish a notice of the said application. The following respondents are hereby issued notice of the pending application: Respondents in IA No-6300 of 2022 in CP (IB)448/ND/2020

1.Rashpal Singh Todd, R/o E-26, South City-1, Gurugram, Haryana-122001

2.Mandhir Singh Todd, R/o E-26, South City-1, Gurugram, Haryana-122001 n terms of the order dated 18-10-2023, the notice is hereby given to the above mentioned respondents to appear before the Hon'ble NCLT, New Delhi, Bench -IV on the next hearing i.e, 20.11.2023, For further details in this regard, kindly contact the undersigned.

Mohit Nandwani **Counsel for the Applicant Resolution Professional of** Panoptes India Private Limited Address:- 46, LGF, Jor Bagh, New Delhi-110003

9899937993/advmohitnandwani@gmail.com

(T) IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED Ground Floor, Mahalaxmi Plaza, Plot No. VC-2, Sector- 3, Near Aaykar Bhawan, Vaishali Ghaziabad, Pin :201012, U.P

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORANAMENTS Offers are invited for the public auction of the gold ornaments, pledged in favour of the

Bank, for the purpose of recovering the dues owed by the Borrower(s) to the Bank, as detailed below. The auction will be conducted at 4:15 P.M onwards in the Bank's premises at IDBI BANK VAISHALI Mahalaxmi Plaza, VC-2, Sector- 3, Next to Aaykar Bhawan, Vaishali Ghaziabad, Pin: 201012 Description Gross EMD Pasarys

No.	No.	Borrower & Address	of gold ornaments pledged	weight in Grams.	in Rs.	price in Rs.
		LAXMI DEPARTMENTAL	1) Ring	20.30	Rs.	Rs.
	00001953	STORE, Address: C/o	2) Chain	8.27	10,000/-	1,00,011
		Mahesh Agarwal, H.No.				
		48, Abhay Khand-1,				
		Indirapuram, Ghaziabad,				
		Uttar Pradesh -201014				

The auction shall be subject to the terms and conditions of the sale stipulated by the Bank. a copy of which shall be displayed in the notice board of IDBI Bank Ltd. Vaishall Branch from 21-11-2023 To 22-11-2023 SD/-

Place: Vaishali Branch Date: 17.11.2023

> FEDBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED **FEDBANK**

Registerd & Corporate Office: Kanakia Wall street, A Wing, 5th Floor, Unit No. 511, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400093, Maharashtra, Tel:022 68520601

Authorized Officer: IDBI Bank

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of Fedbank Financial Services Ltd. under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) reac with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **demand notice** dated June 13, 2023 calling upon the Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s) and Guarantor:- (1) M/S. A Y TRADINGS (Borrower) Through its Proprietor; (2) MOHD. YASAR (Co-Borrower); (3) AIYESHA NOOR (Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the said notice being Rs. 96,35,416/- (Rupees Ninety Six Lakhs Thirty Five Thousand Four Hundred Sixteen only) as on 12/06/2023 in Loan Account No. FEDDLHLAP0496838 together with further interest thereon at the contractual rate plus al costs charges and incidental expenses etc. within 60 days from the date of receipt of the said demand notice.

failed to repay the above said amount within the specific period, notice is hereby given to the Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s), Guarantor and the public in general that the undersigned Authorised officer has taken PHYSICAL POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the SARFAESI Act read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this November 16, of the year 2023 The Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s) and Guarantor mentioned hereinabove in

The Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s) and Guarantor mentioned hereinabove having

particular and the public in general is/are hereby cautioned not to deal with the following property and any dealings with the following property will be subject to the charge of Fedbank Financial Services Ltd. for an amount Rs. 96,35,416/- (Rupees Ninety Six Lakhs Thirty Five Thousand Four Hundred Sixteen only) as on 12/06/2023 in Loan Account No. FEDDLHLAP0496838 together with further interest thereon at the contractual rate plus all the costs charges and incidental expenses etc The borrower's attention is invited to sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect o

time available to redeem the secured assets

SCHEDULE I

DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY Built up property land area measuring 120 Sq. Yds., i.e. 100,33 Sq. Mtrs., (1080 Sq. Fts.)

naving its covered area 100.33 Sq. Mrs., out of Khasra No. 148, bearing Property No. A-19, A, part of property No. A-19, Old Plot No. B2/1, consisting according to site and with the ights to construct upto the last storey, situated at in the area of Village Gazipur, near Aggarwal Sweets and in the Lal Dora Abadi Village of Gazipur, Delhi – 110096, and area bounded as under: East : Road 30 Ft. West : Other Property, North : Property No. A- 20, South: Part of Property No. A-19 AUTHORISED OFFICER Place:- Delhi

Date:- 16/11/2023

tem No.

Fedbank Financial Services Ltd

(2) GCODLUCK GOODLUCK INDIA LTD. Regd. Off.: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi – 110 00

Corp. Off.: Good Luck House, II-F, 166-167, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad, 201001 CIN: L74899DL1986PLC050910; Tel: 91-120-4196600

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION hareholders are hereby informed that on 17th November, 2023, the Company has completed sending the email along with the details of Login ID and password to the shareholders who have registered their e-mail ids with depositories or with the Company as required under Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013

the "Act", which shall include any statutory modifications, amendments or re-enactments hereto) read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules", which shall include any statutory modifications, amendments or re-enac hereto) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations" and in compliance with the requirement of Ministry of Corporate Affairs, Government on adia (the "MCA") vide its General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Genera Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15 No.2020, General Circular No.33 /2020 dated September 28, 2020 and General Circular No.39 /2020 dated December 31, 2020, General Circular No.10/2021 dated June 23 2021. General Circular No. 20/2021 dated December 08. 2021. General Circula no.3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 (the "MCA Circulars"), and pursuant to other applicable laws and regulations, if any, for eeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot by means of remote -voting only, for the following matters **Description of the Resolutions**

Issuance of Equity share through Qualified Institutions Placement("QIP") for ar aggregate amount up to Rs.200 crores

he Notice has been sent to all the shareholders, whose names appear on the Register o Members/ List of Beneficial Owners on Friday, 10th November, 2023, as received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited hus, the voting rights of the shareholders shall be reckoned as on Friday, 10th Novembe 2023. The Company has appointed Sh. Naveen K. Rastogi, Company Secretary

ractice, having C.P. No. 3785 and office at 03, Shankar Vihar, 2nd Floor, Vikas Marg, Delh 110092, as a Scrutiniser for conducting the Postal Ballot process in a fair and transpare nanner. In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014, the Company has offered e-voting facility nrough National Securities Depositories Limited (NSDL) to enable the shareholders t ast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the ostal Ballot Notice. Shareholders can cast their vote online from 9.00 a.m. (IST) or unday, November 19, 2023 to 5.00 p.m. (IST) on Monday, December 18, 2023. ccordance with Section 110 of the Act and Rules 20 and 22 of the Companie Management and Administration) Rules, 2014 read with the MCA Circulars, physica opies of the Notice will not be circulated and the members can vote through e-voting only Notice of Postal Ballot is also available on website of the Compan www.goodluckindia.com'. Shareholders, who do not receive the Postal Ballot Notice by may obtain the same by sending their request to our RTA a nvestor@masserv.com. It may also be downloaded from the website of the Company o om the link 'https://evoting.nsdl.com'. Shareholders whose email ids are not registere with the depositories, are requested to kindly register their e-mail ids with their respective Depository Participants (DP) and send a scanned copy of client master to nvestor@masserv.com for procuring user id and password for e-voting for the resolution set out in this postal ballot notice. The voting period for e-voting module shall ends on 5.00 b.m. (IST) on Monday, December 18, 2023. The result of the Postal Ballot would be

Corporate Office of the Company by the chairman or any other person authorised by him. The result of the Postal Ballot shall also be hosted on the website of the Compan ww.goodluckindia.com and also be displayed at the registered office and corporate iffice of the Company besides communicating to the stock exchanges, where the Compan s listed and our Registrar and Share Transfer Agent. For any query/grievance with respec voting on above Postal Ballot may please be addressed to Mr. Abhishek Agrawa Company Secretary at: Email id: cs@goodluckindia.com, phone no.:-+91-0120-4196600 or write to him at the corporate office of the Company or to the Registrar and Transfer Agent MAS Services Limited, at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase – II, New Delhi – 110 020, e-mail: investor@masserv.com, phone no. +91 11 2638 7281 / 82 / 83.

nnounced on or before Wednesday, 20th December, 2023 during the working hour at the

For and on Behalf of the Board For Goodluck India Limited Abhishek Agrawa

Place: Ghaziabad

Date: 17th November, 2023

Company Secretary ACS: 20983

New Delhi

Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

DEMAND

NOTICE

U/s. 13 (2)

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक

उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की प-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावर्ल 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के

क्लॉज (ए) के मामले में

तथा, मामले में

वाटर वेज लीज़र दूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड, CIN U63030DL2020PTC372580 जिसका पंजीकृत कार्यालय "ए-15, दूसरा तल, हौज खास, दक्षिण दिल्ली 110016" ਸੇਂ हੈ -आवेदक कम्पर्न एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "एनसीटी ऑफ दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 28 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की

पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेटक कंपनी को उसकी एक पवि के सा इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्ले करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2 विंग, दूसरा तल.

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 11000: करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: कृते वाटरवेज लीजुर टुरिज्म प्राईवेट लिमिटेड (आदित्य गुप्ता तिथि : 18.11.2023 स्थान : नई दिल्ली DIN: 09581950

फॉर्म नंबर ३ [विनियम -15(1)(ए)] / 16(3) देखें| <u>ऋण वसूली अधिकरण</u> चंडीगढ़ (डीआरटी 2) पहली मंजिल एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह आवंटित)

केस नंबर 0A/1188/2023 अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत समन ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के

केनरा बैंक बनाम एचएम वेब हाउस प्राइवेट लिमिटेड

4) प्रतिवादी नंबर 4, निजाम अहमद पुत्र रोशन कुमार निवासी बी-102, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23 के पीछे, एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा।

जबिक, OA/1188/2023 को 29/09/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्टार के समक्ष जबिक यह माननीय न्यायाधिकरण आपके खिलाफ

रुपये 1,08,63,866.66 (एक करोड़ आठ लाख तिरसठ हजार आठ सौ छियासठ रुपय और छियासठ पैसे मात्र) (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न) के ऋण की वसूली के लिए दायर अधिनियम की धारा 19 (4) (ओए) के तहत उक्त आवेदन पर समन / नोटिस जारी करता है। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार

आपको, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित दिया जाता है:– (i) समन तामील होने के तीस दिन के भीतर कार बताना होगा कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की

गई है वह क्यों नहीं दी जानी चाहिए। i) मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के तहत आवेदव द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के विवरण क खुलासा करना।

ii) संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित होने तक, आपको मूल आवेदन के क्रम संख्या 3 ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों . संपत्तियों से निपटने या उनका निपटान करने से रोका जाता है। v) आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम रे

उसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को छोडकर किसी भी ऐसी संपत्ति का इस्तांतरण नहीं करेंगे, जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया हो और/या अन्य संपत्ति और संपत्तियों को सीरियल नंबर 3 ए के तहत टिब्यनल की पूर्वानुमति के बिना मूल आवेदन के साथ निर्दिष्ट या खुलासा करना होगा। आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में सरक्षित

परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिकी से पाप्त बिकी आय का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिकी आय को बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास सुरक्षा ब्याज रखने वाले खाते में संपत्तियां जमा करेंगे। ापको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप अप

लिखित बयान आवेदक को सौंपकर उसकी एक प्रति के साथ 16 / 02 / 2024 पर सबह 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न करने पर आवेदन पर आपकी अनुपरिथति निर्णय लिया जाएगा। इस दिनांकः 03/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर और

इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिया गया। रजिस्ट्रार प्रभारी डीआरटी—II, चंडीगढ़

muthööt

HOUSING FINANCE

Q ValueFirst

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र, के समक्षें कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 (4) तथा कम्पनी निगमन नियमावली 2014 के नियम 30(5) के विषय में

वैल्यु फर्स्ट डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय, जी-270, जी-ब्लॉक, फेज-6, रूद्र पब्लिक स्कूल के निकट, आया नगर, नई दिल्ली-110047 में स्थित है।

तथा

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पजीकृत कार्यालय "राष्ट्री राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से तेलंगना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विषे प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के क्लॉज- II में संबोधन की पष्टि की याचना हेत कम्पनी अधियनम्, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्त किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वार समर्थित अपनी आपत्तियां निवेषक षिकायत प्रपन्न भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सपूर्व कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेषक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पूर्यावरण भव सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, फोनः 011-24366038, फैक्स, 011-24366039 ईमेल आईडी rd.north@mca.gov.in को इस सूचना के प्रकाषन के चौदह (14) दिन के भीतर सुपूर्व करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिख ेपते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालयः वैल्यू फर्स्ट डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड जी-270, जी ब्लॉक, फेज-6, रूद्र पब्लिक स्कूल के निकट, आया. नगर. नई दिल्ली-110047

> कृते एवं हिते वैल्यू फर्स्ट डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड हस्ता / -

> > विष्वदीप बजाज (निदेषक) डीआईएन : 01724145

तिथि : 17.11.2023 स्थान : नई दिल्ली

🕼 GCCDLUCK गुडलक इंडिया लिभिटेड रजि. कार्यालय .: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली –110 001

लियः गुड लक हाउस, II-F, 166–167, नेहरू नगर, अंबेडकर रोड, गाजि **सीआईएन :** L74899DL1986PLC050910; **फोन:** 91–120–4196600 ई-मेलः goodluck@goodluckindia.com; वेबसाइटः www.goodluckindia.com

पोस्टल बैलेट की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग सूचना

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों ('अधिनियम', जिसमें कोई वैधानिक परिवर्तनों , संशोधन या पुनः अधिनियमित शामिल होंगे) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियम", जिसमे कोई वैधानिक परिवर्तनों, संशोधन या पुनः अधिनियमितियां शामिल होंगी) और भारतीय प्रतिभूवि एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन ४४ ("सूचीबद्धता विनियम"), और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ("एमसीए")के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्य . 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून 2020 सामान्य परिपन्न संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020 और सामान्य परिपन्न संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 सामान्य परिपत्र क्रमांक 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, सामान्य परिपत्र क्रमांक 3/202: दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र क्रमांक, 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ("एमसी परिपत्र"), और अन्य लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, यदि कोई हो, की आवश्यकता के मनुपालन में, निम्नलिखित मामलों पर केवल दूरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए 17 नवंबर, 2023 को कंपनी ने उन शेयरधारक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के विवरण के साथ ईमेल भेजने का काम पुरा कर लिया है जिन्होंने डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत की हैं

संकल्पों का विवरण कुल राशि 200 करोड़ रुपये तक हेतु योग्य संस्थान प्लेसमेंट ("क्यूआईपी") के माध्यः 1.

से इक्विटी शेयर जारी करना। नोटिस उन सभी शेयरधारकों को भेजा गया है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्र लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त अनुसार, शुक्रवार, 10 नवंबर 2023 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। इस प्रकार शेयरघारकों के मतदान अधिकार शुक्रवार, 10 नवंबर, 2023 को माने जाएंगे। कंपनी ने श्री नवीन के. रस्तोगी, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव, सी.पी. नं. 3785 और कार्यालय 03, शंकर विहार, दूसर मंजिल, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र प्रक्रिय के संचालन के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई–वोटिंग सविधा की पेशकश की है ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस में दी गई है। शेयरधारक रविवार, 19 नवंबर 2023 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से (आईएसटी) सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 को शा 5.00 बजे तक ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं। अधिनियम की धारा 110 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित एमसीए परिपत्रों के अनुसार, नोटिस की भौतिक प्रतियां प्रसारित नहीं की जाएंगी और सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से मतदा कर सकते हैं।

डाक मतपत्र की सचना कंपनी की वेबसाइट 'www.goodluckindia.com' पर भी उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों को पोस्टल बैलेट नोटिस ई-मेल से नहीं मिलता है, वे हमारे आरटीए को investor@masserv.com पर अपना अनुरोध भेजकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट या 'https://evoting.nsdl.com' लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है जिन शेयरघारकों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोघ है वि कृपया अपने ई-मेल आईडी को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के सा पंजीकृत करें और इस डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्लाइंट मास्टर की स्कैन की हुई कॉपी investor@masserv.com पर भेजें। ई-वोटिंग मॉड्यूल के लिए मतदान की (आईएसटी) सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 को शाम 5.00 बर्जे समाप्त होगी। पोस्टल बैलेट का रेणाम बंधवार २० दिसंबर २०२३ को या उससे पहले कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में क दौरान अध्यक्ष या उसके लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाएग पोस्टल बैलेट का परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों. जहां कंपनी सचीबद्ध है और हमारे रजिस्टार और शेय ट्रांसफर एजेंट को सूचित करने के अलावा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय भी प्रदर्शित किया जाएगा। उपरोक्त डाक मतपत्र पर मतदान के संबंध में किसी व प्रश्न/शिकायत के लिए कृपया श्री अभिषेक अग्रवाल, कंपनी सचिव को ईमेल आईडी: cs@goodluckindia.com फोन नंबर:—+91 0120—4196600 पर संपर्क करें या उसे कंपनी कार्पीरेट कार्यालय में या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट,एन डी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी—34, 2 मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—II, नई दिल्ली—110 020, ई—मेल investor@masserv.com, फ़ोन नं. +91 11 2638 7281/82/83 पर लिखें।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड अभिषेक अग्रवाल कंपनी सचिव, एसीएसः 20983

दिनाँक : 17 नवंबर, 2023 स्थान : गाजियाबाद

मुचूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पर्वोक्ति कार्यालयः टीसी नं. 14/2074-7, मुबूट सेंटर, पुन्नेन मार्ग, तिरुचनंतपुरम-695 034, सीआईएन नं.- यू65922केएल2010पीएलसी025624, निगमित कार्यालयः 12/ए 01, 13वां तल, परिनी क्रेसेंनो, भूखंड सं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051, दूरभाष सं.: 022-62728517 ग्राधिकृत अधिकारी ईमेल आईडी: authorised.officer@muthoot.com,

संपर्क हेतु व्यक्तिः गोविंद राम बलराम शर्मा - 9212443181

सार्वजनिक सूचना-संपत्ति की नीलामी-सह-विक्रय वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों का विक्रय वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंप लिमिटेड (यहां इसमें इसके उपरांत "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अधोवर्णित संपत्तियों (यहां इसमें इसके उपरांत "प्रतिमूत परिसंपत्ति" रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इन्हें निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपरांत ''ऋणकर्ताओं' के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवासन ऋष सविधाओं के संदर्भ में प्रतिभत्ति के रूप में अपने पास सरक्षित रख लिया है और अब आगे यह निर्णय लिया गया है कि ऋणकर्ताओं से अतिदेय का अंतिम भगता

	प्राप्त हान तक ानमा साथ के अनुसार प्रातमूल ऋण साथ और इस साथ पर आग के ब्याज व ब्याय के सदम में जनता से महिश्वद ानावदाएं आमात्रत करने द्वारा ''जैसी हैं जहां हैं', ''जैसी हैं जो हैं', ''वहां जो कुछ भी हैं'' और ''बिना संसाधन'' आधार/शतों पर प्रतिमृति परिसंपत्ति का विक्रय कर दिया जाय।						
क्र. सं.	उधारकर्ता ∕ ऑ का नाम एवं एलएएन	अधिग्रहण प्रकार एवं तिथि प्रतीकात्मक कब्ज़ा	কুল ৰকাযা খাষ্টা (হু.) भावी ब्याज लागू	आरक्षित मूल्य (रु.)	ध.रा.ज. (रु.)		
1.	एलएएन नं.: 15100069516	21—मई—2019	17—नवंबर—2023 के अनुसार	4,50,000 / -	45,000 / -		
	1. नवीन कुमार		₹.18,97,372.07 / -				
	2. फूलकुमारी देवी						

सुरक्षित संपत्तियों /अचल संपत्ति/सम्पत्तियों का विवरणः फ्लैट नं. 3 सामने पीछे की तरफ, खसरा नं. 125, शशि टावर, खाता नं. 125 गांव गढ़ी चौखड़ी, दादरी जीबी नगर, नोएडा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, 201301। परिबद्ध इस प्रकार : उत्तर: अन्य, दक्षिण: 02, पूर्व: प्रवेश पश्चिमः अन्य।

निरीक्षण तिथि एवं समय : 28 नवम्बर, 2023 तथा 29 नवम्बर, 2023 को 10.00 बजे से 05.00 बजे

नीलामी तिथिः 8 नवम्बर, 2023 को 10.00 बजे से अप.03.00 बजे तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 7 नवम्बर, 2023 विक्रय स्थल गाजियाबाद शाखाः बी–2, प्रथम तल, आरडीसी, राजनगर, एसबीआई बैंक के ऊपर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001

इच्छुक बोलीदातागण ऊपर अंकितानुसार तिथि एवं समय पर संपत्तियों का निरीक्षण-अवलोकन कर सकते हैं। सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें :-- 1) विक्रय, सरफॉएरिस अधिनियम 2002 के अंतर्गत विरचित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप में यह नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों तथा इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जानेवाले प्रस्ताव/निविदा प्रलेख में संविर्णत नियमों एवं शर्तों के भी अधीन होगा 2) सम्पत्ति की बिक्री ऋणमारों, यदि कोई हो, सहित "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है", "जो कुछ भी वहाँ है" तथा "उपचार रहित आधार" पर की नीलामी के अधीन रखी गयी सम्पत्तियों का निरीक्षण उक्त विनिर्दिष्ट एवं ऊपर अंकित तिथि एवं समय पर किया जायेगा। निरीक्षण अथवा निविदाएं जमा करने से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये उक्त सम्पर्क नम्बरों पर संबंधित स्थानों पर तैनात प्राधिकृत अधिकारियों सम्पर्क करें। इच्छुक क्रेतागण आरक्षित मूल्य के 10: की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) के लिए "मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड" के पक्ष में मुम्ब में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उक्त सम्पत्ति के लिये अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। ४) इच्छुक बोलीदाता को प्रस्ताव दस्तावेज के साथ आय कर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड तथा बोलीदाता के पहचान के प्रमाण तथा निवास के प्रमाण जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशः कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस इत्यादि की प्रति को भी संलग्न करना होगा। 5) किसी भी स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी 6) नीलामी में उपस्थित बोलीदाताओं को निर्धारित आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त रु. 10000/— के गुणकों में अपने प्रस्ताव बढ़ाने की अनुमति प्रदान के जाएगी। 7) सभी देयताओं एवं व्ययों जैसे निगम करों, रख-रखाव/सोसायटी शुल्कों, बिजली एवं पानी के करों तथा स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्के अंतरण शुल्कों तथा उक्त सम्पत्तियों से संबंधित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के संदर्भ में नियत अन्य व्ययों एवं शुल्कों सहित किसी भी बकाये का गुगता सफल बोलीदाता/क्रेता को ही वहन करना होगा। 8) सफल बोलीदाता/क्रेता को (पूर्व प्रदत्त 10 प्रतिशत ईएमडी समायोजित करने के बाद) अंतिम बोल राशि के 25: का, बिक्री के संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति से अगले कार्यदिवसों के भीतर भुगतान करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जन कर ती जायेगी। 9 विकय मूल्य का शंघ 75 का भूगतान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल केता को बिक्री की पुष्टि की सूचना दिए जाने के 1 विनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर लिखित में स्वीकृत ऐसी विस्तारित अवधि में किया जायेगा। 10) प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छापूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के लिए निर्गत इस सूचना के किसी भी नियम एवं शर्त को परिवर्तित करने का अधिकार होगा। 11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संगावित बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बोलियां मेसर मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ बिना किसी दायित्व / दावे के उन्हें वापस कर दी जाएंगी। 12) उधारकर्ता का ध्यान , सुरक्षित संपिर को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ,सरफेंसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 13) आग तौर पर जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/गिरवीकर्ता कृपया ध्यान दें कि यदि यहां निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है त

सुरक्षित ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से सुरक्षा हित लागू कर सकता है। एतद्द्वारा ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सरफॉएसि अधिनियम की प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) एवं 9 के अंतर्गत 15 दिन की सांविधिक सूचना दी जाती है। ऋणधारक/कों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 15 दिवसों के अंदर संपत्ति से अपनी अप्रमारित वस्तुओं क हटा दें, अन्यथा इन्हें उनके जोखिम और लागत पर संपत्ति से हटा दिया जायेगा।

स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 18 नवम्बर, 2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

रेलवे विद्यतीकरण

निविदा सूचना सं. आरई/एमएस/सिविल/2023-10 तिथि 15.11.2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप-मुख्य अभिंयता, रेलवे विद्युतीकरण, चेन्नई एग्मोरे द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है। निविदा वेबसाईट ww.ireps.gov.in द्वारा 26.12.2023 के 15.00 बजे तक ऑन लाइन जमा की जाएगी।

बोलीदाता केवल बंद होने की तिथि एवं समय तक अपनी मूल/संशोधित बोली जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिये मैन्युअल प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तथा प्राप्त की गई ऐसी किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

1) मदुरई मंडल में बत्तीस (32) नग एस एंड टी बिलिंडग (आईपीएस हट्स, इन्टरलॉक्ड) एलसी गेट्स के निकट) (डिण्डगुल-पोल्लाची खंड 13 नग, थिरुथुनगर-तेनकासी खंड 3 नग तथा सेंगोट्टई-तिरुनेलवेली-तिरुचेन्दूर खंड 16 नग का प्रस्तावित निर्माण)। कार्य का नाम

> 2) मदुरई मंडल में सेनगोट्टई में स्टाफ क्वा. टाइप-II (जीएफ में 4 यूनिट), एवं टाइप-III (जीएफ में 4 यूनिट), तथा जीएफ-IV 2 यूनिट्स, बोरवेल, ड्रेन, कम्पाउण्ड वाल तथा एप्रोच रोड का प्रस्तावित निर्माण। 3) मदुरई मंडल में रामनाथपुरम में टीएसएस के लिये क्रॉस ट्रैक, सेप्टिक

टैंक, सी सी रोड का निर्माण। अनुमानित नगदी मूल्य (रुपये में) 5,86,78,801.28 ारोहर राशि भुगतान रुपये में 4,43,400.00

बारह माह

(केवल एक मद)

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) तथा निविदा दस्तावेज वेबसाईट www.ireps.gov.in उपलब्ध है तथा निविदाकार उसे देख लें। साथ हीं निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि जीएसटी सिहर अपनी दरों को कोट करें।

Follow us on : D twitter.com/GMSRailways

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड सीआईएन - L60231UP2008PLC069245

पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403 वेबसाइटः www.jindalinfralogistics.com, ई—मेलः contactus@jindalinfralogistics.com

असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

रतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की कंपनी की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम" शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2023 को दोपहर 12.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए— ्र यूपीएसआईडीसी इंडस्टिंयल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 (उ.प्र.) ों कथित असाधारण आम बैठक में दी गई सूचना के कार्यों के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। असाधारण आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके पास रिकॉर्ड तिथि, यानी 10 नवंबर, 2023 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है और अन्य सभी सदस्यों को भौतिक प्रति भेज दी गई है। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com पर भी देखे जा सकते हैं। एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे वे कंपनी की असाधारण आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से दे सकें।

प्तदस्य कृपया निम्नलिखित नोट करें :

पर्णता अवधि माह में

o. दरस्थ ई—वोटिंग मंगलवार. 12 दिसम्बर. 2023 को सबह 9.00 बजे आरंभ होगी और गर्रावार 14 दिसम्बर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

. दरस्थ ई—वोटिंग गरूवार. 14 दिसम्बर. 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी. दूरस्थ ई-वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 08 दिसम्बर, 2023 है। कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास

कट आफॅ तिथि 08 दिसम्बर, 2023 को शयेर धारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्र. लि., कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्टिंयल एरिया, फेज 2, नइ दिल्ली-110020, फोन 011-26387320-23, फैक्सः 011-26387322, ई-मेल evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य असाधारण आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं, किंतु उन्हें असाधारण आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान के माध्यम से वोटिंग की सुविधा असाधारण आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लि होगी जिन्हानें दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है।

सदस्य असाधारण आम बैठक की सूचना में बताए गए ई-वोटिंग के अनुदेश पढ़ें या https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com व डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई—वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए हस्ता /

स्थान: नर्ड दिल्ली तिथि : 17 नवंबर, 2023

आलोक कुमार कम्पनी सचिव एसीएस-19819

UNITY Finance Bank

क्र.सं.

मुंबई — 400 098

मांग सचना यू / एस. 13(2)

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ ("नियम") के प्रावधानों के तहत । अधिनियम के तहत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड ("बँक") के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13 के तहत मांग सूचना जारी किया है। जिसमें अधिनियम के (2), निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है। चूंकि कुछ नोटिस डाक टिप्पणियों

के अनुसार नहीं भेजे गए हैं. इसलिए उक्त नोटिस उधारकर्ता को सेवा के वैकल्पिक तरीके यानी समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

सुरक्षित संपत्ति ऋण खाता विवरण संपत्तियों का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जैसा कि नीचे वर्णित है: उधारकर्ता का नामः 1) एमडी कॉन्ट्रैक्टर (उधारकर्ता) **प्रॉपर्टी नंबर 1:** प्लॉट नंबर 15, एरिया 110 वर्ग यार्ड यानी. 91.97 वर्ग मीटर, 00129, खसरा संख्या 1180 मीटर, ग्राम बरौला, परगना एवं तहसील–दादरी, जिला– गौतम 2) मीना एच (सह-उंघारकर्ता एवं बंधककर्ता) बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत — 201301 3) विकास चौहान (सह—सधा बुद्ध नगर, उत्तर प्रयस, नारत — 201501 सीमाएँ (उपहार विलेख के अनुसार) पूर्व — जिले सिंह की संपत्ति पश्चिम — 16 फीट चौड़ी गली और प्रवेश द्वार 4) प्रशांत चौहान (सह—उधारकर्ता) 5) सोनल चौहान (सह—उधारकर्ता) अनुबंध दिनांकः 23/06/2022 ऋण खाता संख्याः—USFBDELLOAN000005003467 इंद्रजीत की संपत्ति दक्षिण - सडक उत्तर – इंडजात का संपात दक्षिण – सङ्क सं<mark>पत्ति नंबर 2</mark> प्लॉट नंबर 128, क्षेत्रफल 140 वर्ग यार्ड यानी 117.05 वर्ग मीटर, खाता नंबर 00128, खसरा नंबर 1086 मीटर, गांव बरौला, परगना और तहसील – दादरी, जिला– गौतम **ऋण राशिः** रु. 64.95.000 / -बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत – 201301 सीमाएँ (उपहार विलेख के अनुसार) पूर्व – धर्मपाल की संपत्ति पश्चिम – अन्य संपत्ति **एनपार ।दनाक:** 02/10/2023 **मांग सूचना दिनांक :** 13/10/2023 (17/10/2023 को भेजा गया) डिमांड नोटिस राशि **:** रु. 50,73,275.61 पी (आज तक)।

।

(6) (साठ) दिनों की अवधि के मीतर उपरोक्त बकाया राशि चुकाने में विफलता के मामले में, अघोहस्ताक्षरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को लागू करने के लिए बाच्य होगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(ा3) के अनुसार, आपको यहां उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ लेनदेन या हस्तातरण करने से रोका जाता है, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अधिनियम के तहत अपराध और दंडनीय है। मागं नीरित्त की प्रति अघोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश दिनांकः 18/11/2023 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

HDFC BANK

11 / 10 / 2023) और ब्याज एवं अन्य शुल्क

विधिक प्रकोष्ठ भूखंड रु 31, नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, टॉवर-ए, प्रथम तल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली - 110015

उत्तर – सड़क दक्षिण – दीपक की संपत्ति

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना। निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं सह—उधारकर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से निम्न वर्णित प्रतिभृत ऋण प्राप्त किये थे तथा निम्न वर्णित उधारकर्ताओं एवं सह—उधारकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभृत किया गया है। कितु चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल हो चुके हैं तथा अनियमित बन चुके हैं, अतपृत्व उनके ऋणों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में

वर्गीकृत कर दिया गया था। उनके द्वारा बकाये के रूप में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय राशि का अंकन निम्नलिखित तालिका में किया गया है तथा उक्त बकाया राशियों पर भावी ब्याज का भुगतान भी लागू अनुसार किया जाना है तथा वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी होकर प्रभारित होगा।					
ऋण सुविधा का प्रकार तथा खाता सं	उधारकर्ताओं एवं सह—उधारकर्ताओं / बंधककर्ता के नाम	13(2) के अनुसार बकाया / सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण	एनपीए की तिथि	
संपत्ति के समक्ष ऋण 452213854	1. मैसर्स रवि इंडस्ट्रीज (उधारकता) अपने स्वामी श्री रवि प्रकाश जैन के माध्यम से, पता :- सी-209, पॉकेट-सी, बवाना, दिल्ली-110039	दिनांक 27.10.2023 के	फ्लैट नंबर बी—1/63, 6ठवां तल, श्रेणी — एच.आई.जी., जो राजस्थानी भवन निर्माण (ग्रुप हाउ. सिंग) सहकारी समिति लिमिटेड.	06.10.2023	
	2. श्री रिव प्रकाश जैन (सह—उघारकर्ता) पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन, पता: — बी−1/63, राजस्थली अपार्टमेंट पीतमपुरा, दिल्ली — 110034 3. श्रीमती बीना जैन (सह—उघारकर्ता एवं बंधककर्ता) पत्नी श्री प्रकाश चंद जैन, पता: — बी−1/63, राजस्थली अपार्टमेंट पीतमपुरा, दिल्ली — 110034 4. श्रीमती मोनिका जैन (सह—उघारकर्ता) पत्नी श्री रिव प्रकाश जैन, पता: बी−1/63, राजस्थली अपार्टमेंट		ासा) सहकार सामात तिमान्य हैं जिसे वर्तमान में राजस्थली अपार्टमेंट्स के नाम से जाना जाता है, के लेआउट प्लान, मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली में स्थित है (क्षेत्रफल माप 1294 वर्ग पृट) (संपत्ति श्रीमती बीना सिंह के स्वामित्वधारण में हैं)।		
			स्वामित्वधारण में है)।		

चूंकि उस पते पर प्रेषित की गई सुबनायें, जिसमें आप मुलरूप में निवास करते हैं / व्यवसाय संचालित करते हैं / लामार्जन हेतु व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, हमारे पास वापस लीट आई हैं, अतः अब हम इस सूचना को प्रकाशित करने के दियो बाध्य हैं। अतएव आपको एतद्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर उपरोक्त सेन्दारी का देनदारी की संबंधित तिथियों से देनदारी राष्ट्री परि परि पर्याण की सविदाकृत दर पर नितर्य क्याज काथ अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि क मृताना करके अपने दायित्व का निर्देशन करें। ऐसा नहीं करने पर बैंक उपरोक्त अधिनियम की धारा (3(4) के अंतर्गत प्रतत्त समस्त अधिकारों अथा किसी एक अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी स्वित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) के निबंधनों के अनुसार आप उपरोक्त प्रतिभृत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के द्वारा अथवा अन्यथा हस्तातरण नहां कर सकरा। **दिनांक : 18—11—2023, स्थान : दिल्ली**

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यू हैबिटेट डाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपर्मेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कार्यलयः यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मील, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110075, ई-नेला: info@newhabitati.ni, info@savehfl.in वेव: www.savehfl.in, मो.: +91-9999694526 वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम

(सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

स्व हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से नीचे वर्णित ऋणधारकों / सह ऋणधारकों हारा प्राप्त ऋणों जो नीचे वर्णित लिये को नीचे वर्णित ऋणधारकों / सह ऋणधारकों हारा प्राप्त ऋणों जो नीचे वर्णित लिये को नीचे वर्णित श्रेष कोचे वर्णित श्रेष के साथ एनीए वन चुका है, के संदर्भ में । हमने पहले ही स्पीड पोस्ट द्वारा वितीय परिसम्पित्यों के प्रतिमृतिकरण एवं पुननिर्माण लथा प्रतिमृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें मांग सूचना का विवरण जारी किया था। हमने, यदि आप 60 देनों के भीतर नीचे वर्णित राशि का मृताना करने में प्रकल होते हैं, तो सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से एक के स्वामित्य की प्रतिमृत्तियों का कका करने की अपनी मंशा तथा वी थी। यदि आप यहां नीचे वर्णित देवता का निष्पादन नहीं करते हैं तो सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिमृत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम की थारा 13(4) के माध्यम से प्रदत्त किसी एक अधिकारों को प्रयोग कर सकता है तथा सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत तथा वांधित रूप में इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य पद्धित में कब्जा सूचना / नीलामी सूचना प्रकाशित कर सकता है। विवरण इस प्रकार है: क. ऋणधारकों / सह—ऋणधारकों का नाम मांग सचना तिथि प्रतिभत परिसम्पत्तियों का विवरण

सं.	और एनपीएं की तिथि	बकाया राशि	
	ऋण खाता संख्या HSG/N/HEA/NOI/0121/0013 जिसे		गांव घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110051 में स्थित संपत्ति सं.116 पर
			निर्मित प्रथम तल, एरिया परिमाप 57 वर्ग गज, यानी 47.66 वर्ग मीटर,
	1. श्री प्रताप नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर (आधार कार्ड नंबर		खसरा नंबर 476 में से, जिसमें दो कमरे का सेट, छत के स्तर तक, बिजली
	256698656249) और 2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री प्रताप नागर		से सुसज्जित, अगल मीटर के साथ नल का पानी, सामान्य सीढ़ी, सामान्य
	(आधार कार्ड नंबर 539825894379) दोनों निवासी- मकान		मुख्यद्वार / प्रवेश द्वार सामान्य मार्ग का उपयोग करने का अधिकार, सामान्य
	नंबर 261, घोंडली गांव, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली—110051		पार्किंग, अविभाजित, अविभाज्य, निष्पक्ष, भूखंड के उक्त भूमि में आनुपातिक
	इसके अलावा @ मकान नंबर 116, प्रथम तल, ग्राम घोंडली,		स्वामित्व अधिकार के साथ, सभी फिक्स्चर और फिटिंग के साथ, उक्त भवन
	इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 इसके अलावा @ दुकान		में प्रदान की जाने वाली सभी सामान्य सुख-सुविधाओं। और निम्मानुसार
	नंबर 263, गांव घोंडली, गीता कॉलोनी के पास, थाना कृष्णा		घिरा हुआ है:— पूर्वः सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिमः गली 5 फीट चौड़ी, उत्तरः
	नगर, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली—110051		गली 5 फीट चौड़ी, दक्षिणः अन्य की संपत्ति सं. 14
	A	D- 4\ 0707	

उपरोक्त ऋणधारकों / सह—ऋणधारकों को सलाह दी जाती कि 1) अधिक तथा सम्पूर्ण विविरणों के लिये अधोहस्ताक्षरी से मूल सूबना प्राप्त करें, तथ 2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कारवाई से बचने के लिये उपरोक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज तथा लागत आदि के साथ शेष बकाये राशि ग भुगतान करें। दिनांक 18-11-2023, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

MONEY BOXX मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 523-ए, सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 CIN: L30007DL1994PLC260191 | Tel: 011-45657452| info@moneyboxxfinance.com | www.moneyboxxfinance.com

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

रतदुद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम`) विडियो कान्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसाय निष्पादन हेतु **शुक्रवार, दिसम्बर 08, 2023 को दोपहर 12:00 बजे** (आईएसटी) पर आयोजित

की जायेगी। उपरोक्त बैठक का स्थल कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा। र्य मंत्रालय ("एमसीए") साधारण परिपत्र बर 25, 2023 एवं पहले जारी परिपत्रों के सम्बन्ध में कम्पनीज अधिनियम, 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा साधारण और विशेष संकल्पों को पारित करने पर स्पष्टीकरण एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया ("सेबी") के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023 एवं इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी अन्य सभी प्रासांगिक परिपत्रों में कम्पनियों को विभिन्न शर्तों के अनुपालन में विडियो कान्फ्रैन्सिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा सामान्य बैठक

आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में सदस्य पुनः नोट करें कि, सदस्य ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम द्वारा उपस्थिति एवं भाग ले सकते है। ईजीएम में भाग लेने के विस्तारित निर्देश ईजीएम की सूचना में प्रदान किये गये हैं। कम्पनी ने ईजीएम आयोजन की सूचना उन सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी एवं/ डिपॉटरीज के पास पंजीकृत को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार **वीरवार, नवम्बर 16, 2023** को भेज दी गई हैं।

सेबी परिपत्रों के अनुसार ईजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जायेंगी। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना एवं ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन कर अपने ईमेल पते पंजीकृत करा

मौतिक धारित कृपया आईएसआर 1. एसएच-13 एवं आईएसआर-2 (यदि कम्पनी के रिकार्ड में हस्ताक्षर मिलान नहीं होते) को मास सर्विसेस लिमिटेड टी-34 दितीय मंजिल ओखला इन्डस्टियल एरिया फेस-॥ नई दिल्ली 110020 को भेजें। कृपया अपने डिपॉटरीज भागीदार से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाये गये प्रक्रिया के अनुसार

कपया साथ में एनएसीएच द्वारा लाभांष के भगतान, यदि कम्पनी द्वारा घोषणा की जाती है, के लिए अपने बैंक विवरण अपने डीपी के पास अपडेट करा लें। सदस्य नोट करें कि ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट i.e www.moneyboxxfinance.com, स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट जहाँ पर कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं बीएसई लिमिटेड i.e. www.bseindia.com एवं नेशनल सिक्योरीटीज डिपॉटरीज लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उचित समय पर उपलब्ध होगी। उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों की जानकारी एवं लाभ एवं एमसीए एवं सेबी द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में एवं कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 यथा संशोधित एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 एवं सामान्य बैठक में सचिवीय मानक (एसएस-2) के अन्तर्गत सदस्यों को ईजीएम आयोजन की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्ताओं पर उनके इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) प्रणाली की सविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान कराई जा रही है। सदस्यों को वोटिंग का अधिकार उनके द्वारा **शक्रवार. दिसम्बर.** 01, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल में धारित इक्वीटी शेयर के अनुपात में

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि निम्न अवधि के दौरान उपलब्ध होगी रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारम्भ सोमवार, दिसम्बर 04, 2023 (प्रातः 9:00 बजे)

स्थान : गुरूग्राम

तिथि : 16.11.2023

अपने ईमेल पंजीकृत करा लें।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि का समापन वीरवार, दिसम्बर 07, 2023 (सायं 5:00 बजे) इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकते है। तद्पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटि

मॉडयूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा, वे सदस्य, जो ईजीएम में वीसी/ओएवीएम की सुविधा द्वारा उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा प्रस्ताओं पर अपना वोट नहीं दिया है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा ईजीएम से पहले अपना वोट दे दिया है वे ईजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा

भग/उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे। किसी व्यक्ति, जिसने कम्पनी के शयर्स अधिग्रहित किये हों और कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रानिकली सूचना को भेजने वं

बाद सदस्य बना हो और कट–ऑफ तिथि को शेयर्स धारण करता हो, लॉगइन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए <u>evoting@nsdl.co.in</u> की सहायता भाग पर अनुरोध भेज सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल पर पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट देने के लिए अपनी मौजूदा यूजा आईडी एवं पास वर्ड का उपयोग कर सकता है। ई—वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ के लिए सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और सहायत

1800 224 430 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी शिकायत कि लिए, कृपया नामित ईमेल आईडी <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर सम्पर्क करें। राशांक पशीने एण्ड एसोसियेट्स के श्री शशांक पशीन, कार्यरम कम्पनी सचिव को ईजीएम से पहले∕दौरान ई–वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जाँच के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। ईजीएम का

कृते मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड

सिमान्त जूनेजा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



डाबर इंडिया लिमिटेड

CIN: L24230DL1975PLC007908 पंजीकृत कार्यालय; 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110 002 फोनः 011–23253488, फैक्सः 011 23222051 वेबसाइटः www.dabur.com, निवेशकों के लिए ईमेल: investors@dabur.com

डाक मतपत्र की सूचना

सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय "**एमसीए**"), भारत सरकार द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र ("**एमसीए परिपत्र**"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 02 नवंबर 2023 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ ("**पोस्टल बैलेट नोटिस**") केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जिनका ईमेल पता कंपनी / कंपनी के आरटीए यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ **10 नवंबर, 2023** को ("**कट—ऑफ तिथि**") पंजीकृत है, को भेजने का कार्य दिनांक 17 नवंबर 2023 को समाप्त कर लिया है। नोटिस की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को संबंधित एमसीए परिपत्रों द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सुशील चंद्रा की नियुक्ति से संबंधित विशेष व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वोटिंग") के द्वारा पोस्टल बैलेट से किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं का लाभ उठाया है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 18 नवंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (IST) शुरू होगी और रविवार, 17 दिसंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। इसके बाद, रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य ने प्रस्ताव पर अपना वोट डाल दिया, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति

केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, रेजोल्युशन पर अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है, वे investors@dabur.com पर कंपनी को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.dabur.com); नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com); बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com); और एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है; ।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नीचे दिए गए दस्तावेजों को कंपनी के आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को einward.ris@kfintech. com, पर ईमेल द्वारा भेजकर पंजीकृत कर सकते हैं, ए) विधिवत हस्ताक्षरित और भरा हुआ अनुरोध पत्र फॉर्म आइएसआर-1 में (जोकी कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com पर उपलब्ध है), इ) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी, और ब) पते के प्रमाण की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या 022 — 4886 7000 और 022 — 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर या उपरोक्त नंबरों पर संपर्क करें। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते investors@dabur.com पर भी लिख सकते हैं।

पोस्टल बैलेट का परिणाम मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट (www.dabur.com) एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com); स्टॉक एक्सचेंज यानी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia. com), पर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ उपलब्ध होगा और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

> डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए ए.के. जैन

ईवीपी (वित्त) एवं कंपनी सचिव

नई दिल्ली

दिनांक : नवंबर 17, 2023

स्थान : नई दिल्ली

भाग के तहत www.evotingindia.nsdl.com को संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990/

विवरण कम्पनी की वेबसाइट <u>www.moneyboxxfinance.com</u>, एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u>,

बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध है।

